

Plot No. 21 & 22, Sector-6, Faridabad-121 006 (Haryana) INDIA Tel.: 91-129-2240411, 2306700 2306783

24th May, 2023

Listing Department

**National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

**NSE Symbol: SPLIL** 

Listing Department

**BSE Limited** 

Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532651

Subject- Compliance u/r 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed the extracts of the newspaper advertisements published for dissemination of approved audited financial results (single segment & standalone) for the quarter/year ended 31st March, 2023 in the below mentioned newspapers-

- a) Business Standard (English)
- b) Business Standard (Hindi)

Please take it on your record

Thanking you

Yours faithfully,

For, **SPL Industries Limited** 

Vishal

IX c-all, XI advantallas, 
Al-Dancellas et el Pl d'ella advallàs la bri del d'o aet advallas de 
del 2013 brill (del 2014 per portulo dese-1001) 2, 
del collection del 2014 per portulo dese-1001) 2, 
del collection del 2014 per del 2014 per 
del 2014 per del 2014 per del 2014 per 
del 2014 per del 2014 per l'ella del 2014 per 
del 2014 per del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 per 
del 2014 p

Vishal Srivastava (Company Secretary &

Compliance Officer)

# Arcil

### **ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) LIMITED** Regd Office: The Ruby, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai-400028


POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer of Secured Creditor under Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrowers to repay the amounts mentioned against their respective name together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of publication of the said Notice, along with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and / or realization. The below-mentioned Loan Account along with its underlying security(ies), including the Immovable Property, had been acquired by ARCIL acting as Trustee of ARCIL-Retail Loan Portfolio-086-A-TRUST from Muthoot Housing Finance Company Ltd. ("MHFCL") ("Assignor") in

Sr. No.		Total Outstanding Amount	Action Taken
1	Radheshyam Bhairu Gadri and Gita Gadri LAN No: 13390087326 SELLING BANK - Muthoot Housing Finance Company Limited (MHFCL)	Rs.8,91,946.76/- (Rupees Eight Lakhs Ninety One Thousand Nine Hundred Forty Six And Paise Seventy Six Only) as on 19-May-2021	Physical Possession on 19-May-2023
	Secured property: All the piece and parcel of the mortgaged property Patta 311025, India	a No 16, Pipali, Kalundiya Road, Suwana, Raja	sthan, Bhilwara

Whereas the borrowers mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorized Officer of Secured Creditor has taken Physical possession of the properties/Secured Assets described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above. The borrowers mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/Secured Assets and any dealings with the said properties/Secured Assets will be subject to the charge of Asset Reconstruction Company (India) Limited.

Place: Rajasthan	SD/- Authorized Officer, Asset Reconstruction Company (India) Ltd
Date: 24-May-2023	As Trustee of ARCIL-Retail Loan Portfolio-086-A-TRUST



terms of Section 5 of the SARFAESIAct, 2002.

## **SEWA GRIH RIN LIMITED**

Registered Office: 1st Floor, 216/C-12, Old No.C-12, Plot No. 13-B, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi - 110092

## RULE-8(1) POSSESSION NOTICE (For immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of the **SEWA GRIH RIN LIMITED** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the Borrowers/Co-borrower/Guarantor to repay the amount mentioned in the notice and further interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers/Co-borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Co-borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8(1) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the SEWA GRIN RIN LIMITED for below mentioned Outstanding amount plus interest and ncidental expenses, costs thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. Name & Add. of Borrower/ No. Mortgagor/Guarantor	Outstanding Amount (Rs.)	Notice Date Possession Date	
1. 1. Mrs. Sunita W/o Mr. Bhup Singh 2. Mr. Bhup Singh S/o Mr. Kallu Singh 3. Mr. Laisingh S/o Mr. Mangal Singh	Rs. 2,50,972.15/- plus interest and incidental expenses, costs thereon.	19.12.2022 19.05.2023	Situated at Khasra No. 1169, Village Loni, Dist. Gaziabad, U.P201002. Admeasuring 37.5 Sq.Yard. Boundarles: East: Plot of Digar Owner, West: 13 Ft. Wide Passage, North: Plot of Digar Owner, South: Plot of Digar Owner

Place · Delhi Authorized Officer/Chief Manager Sewa Grih Rin Limited Date : 19.05.2023



## SPL INDUSTRIES LTD.

Regd. Office: 202, Ilnd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi-110019 Email: cs@spllimited.com | CIN: L74899DL1991PLC062744

The Manager Listing Department, NSE/BSE

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR TI	HE QUARTE	R AND YEA	R ENDED 3	1st MARCH	, 2023
					(In ₹ La
PARTICULARS	Quarter Ended 31-03-2023	Quarter Ended 31-12-2022	Quarter Ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2023	Year Ende 31-03-2

l l					(in C Lakis)
PARTICULARS	Quarter Ended 31-03-2023	Quarter Ended 31-12-2022	Quarter Ended 31-03-2022	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	5,762.81	6,328.96	8,049.80	29,836.57	20,791.26
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (before extraordinary items and Tax)	515.28	676.05	1,005.67	3,291.78	2,865.52
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before Tax (after extraordinary items)	429.48	676.05	1,005.67	3,205.99	2,865.52
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	339.31	489.88	701.77	2,383.59	2,108.42
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax)	353.97	489.88	639.49	2,398.25	2,100.14
Equity Share Capital	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year)					
Earning Per Share (before extraordinary items and tax) (of ₹10/- each)					
Basic:	1.78	2.33	3.47	11.35	9.88
Diluted:	1.78	2.33	3.47	11.35	9.88
Earning Per Share (after extraordinary items & tax) (of ₹10/- each)					
Basic:	1.17	1.69	2.42	8.22	7.27
Diluted:	1.17	1.69	2.42	8.22	7.27

## NOTES:

- 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its mee held on 22nd May, 2023. The Statutory Auditors have reviewed the results for the Quarter/Year ended 31st March, 2023.

  This Statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS),
- Prescribed under section 133 of the companies act 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extra
- applicable. The company adopted Ind-AS from 01st April 2017.

  The Meeting of Board of Directors was held on 22nd May, 2023 at the schedule time and the above results were approved.

  As per IND AS 108 "Operating Segment", the company has disclosed the segment information only as a part of the standalone.
- financial results.

  Effective April 1, 2018, the Company adopted Ind-AS 115 Revenue from Contracts with Customers. The effect on adoption of
- Ind-AS 115 is insignificant on the financial statements.

  Effective April 1, 2019, the Company adopted Ind-AS 116 Leases. The effect of
- mancial statements.

  No complaints were received during the Quarter/Year ended 31st March, 2023.

  Figures for the quarter ended 31st March, 2023, represents the difference between audited figures in respect of the full financial
- year and the published figures of nine months ended December, 2022. Previous Year / Period figures have been recasted/regrouped/reclassi fied wherever considered necessary.

Place : Faridabad	<b>Mukesh Kumar Aggarwal</b>
Date : 22-05-2023	(Managing Director)

Date: 22-05-2023	(Managing Director)

पंजाब ग्रेशगल बेंक punjab national bank	Circle SASTRA Department, Circle Office, Harshil Tower 29, Naru Marg, Alwar, Rajasthan, Phone: 0144-2700667 E-Mail: coalwsamd@pnb.co.in, cs8184@pnb.co.in
E-AUC	TION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securitsation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with provise to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described Immovable properties mortgagod/charged to the Secured Creditor, the constructive Physical/symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on 'As is where is', As is what is', and 'Whatever there is' without movable es on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrow

ı	IAIO	ntyayor (s) and Guarantor (s). The N	eserve price and the earnest more	ay deposit willbe as mentioned in t	THE DEHOW AYAITISE	ille respective	properties.
	Lot N	Name of the Branch Name of the Account/	Description of the	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002	Price	Date/time	
ı	0.	Account No.	immovable properties	(B) Outstanding amount as on	(Rs. in Lacs) (B) EMD	of e-auction	encum- brances
		Name & Addresses of the Borrower/	mortgaged/ Owner's Name (Mortgagors	(C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002	(C)Bid Increase Amount		known to the
		Guarantors/ Mortgagor Account	of property/ies)	(D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	(D) Inspection Date & Time		secured creditors
	1	PNB, Manu Marg, Alwar M/s CUAL INDUSTRIES PVT. LTD. M/s CUAL INDUSTRIES PVT. LTD. Office: B-22, 6TH Floor, Pocket- 9A, Jasola, New Delhi, South Delhi 110025 also at Plot No. 1, 0ld Industrial area, Behind Rallway	Industrial Area, Behind Railway Station, Alwar, Raiasthan-301001 in the	B) Rs. 7,75,32,356.84 with further Interest and charges wef 01.11.2022 till payment made in full	A) Rs. 165.00 Lakh B) Rs. 16.50 Lakh C) Rs. 1,00,000/- (One Lakh)	From 11:30 AM to	Not Known to the bank as per record available, however SA No.110/2023
			Area 1688 Sq. Mtr. Bounded	D) Symbolic Possession	D) <b>12.06.2023</b> From <b>11.00</b> AM to <b>03.00</b>	& 123/2023 A/c is pend DRT Jaipur	ing before , Wherein

Behind Primary Girl School, Ft. Wide Road, East- M/s Ramnarayan & Brothers West-Mandawar, Mahwa, Dausa, M/s Bhagyashree Minerals. operation

Mandawar, Mahwa, Dausa, MVS Bhagyashree Minerals.

Rajasthan 321609, Mrs. Chancel Yadav C/o Mr. Ashok Yadav (Director) 16, Kapil vastu villas, Jaipur road, Near DPS School, Liwari, Bhoggore, Alwar (Raj) 301001, Mr. Arpit Goyal S/o Late Mr. Ramavtar Goyal (Guaranter) 77, Sharti Kunj, Alwar (Raj) 301001, Mrs. Sangeetu Jain W/o Mr. Raj Kumar Jain (Guarantor) Khasra No. 194, Old Industrial Area, Itarana Road, Alwar (Raj) 301001, Mr. Ashok Kumar Jain S/o Mr. Dharam Chand Jain (Guarantor) Khasra No. 194, Old Industrial Area, Itarana Road, Alwar (Raj) 301001, Mr. Raj Kumar Jain S/o Mr. Dharam Chand Jain (Guarantor) Khasra No. 194, Old Industrial Area, Itarana Road, Alwar (Raj) 301001, Mrs. Uma Goyal W/o Late Mr. Ramavtar Goyal (Guarantor) 77, Shanti Kunj, Alwar (Raj) 301001, Mr. Mohit Yadav S/o Sh. Jaswant Singh Yadav (Guarantor) Ex MP House, Dr. Jaswant Singh Yadav (Suarantor) Res. Jaswant Nagar, Alwar (Raj) 301001, Mrs. Divya Yadav W/o Mr. Mohit Yadav (Guarantor) Dr. Jaswant Singh Yadav (Jaipa Bye Pass, Jaswant Nagar, Alwar (Raj) 301001, M/s Honeyage Industries (Partnership Concern) 194, Old Industrial Area, Itarana Road, Alwar (Raj) 301001, M/s Shri Krishna Enterprises (Partnership Concern) 194, Old Industrial Area, Itarana Road, Alwar (Raj) 301001, M/s Shri Krishna Enterprises (Partnership Consern) Plot No 1, Old Industrial Area, Behind Railway Station, Alwar (Raj.) 301001
PNB, Manu Marg, Alwar | Industrial Property. | A) 19.05.2022 A) Rs. 910.00 13.06.2023 Not Known to the bank as per 11:30 AM I skh 2 PNB, Manu Marg, Alwar

,		,
M/s Powerage Industries	consisting Land &	B) Rs. <b>27,29,02,134.89</b> with
M/s Powerage Industries.	Khasra No. 194. Old	Ifurther Interest and charges
Add. Old Industrial Area, Itarana	Industrial area, Itarana	wef 19.05.2022 till paymen
Road, Alwar (Raj.)	Road, Alwar, 301001. in	made in full.
M/s Honeyage Industries a	the name of M/S	
Partnership Firm (Guarantor)	Honeyage Industries.	C) 01.09.2022
Add. Old Industrial Area, Itarana	admeasuring Area: 13310	
Dood Almer/Dei \ Ch Del Vurger	ISO. YOS. UT 11134.55 SQ.	i III Symbolic Poesession
Jain S/o Sh. Dharam Chand Jain	MIT, BOUNDED AS: EAST-	
(Dartner ours guarantes) Add	Arun Textiles presently it is	

ith Lakh From les B) Rs. 91.00 11:30 AM Lakh to however SA C) Rs.2,00,000/- 04:00 PM No.529/2022 (Two Lakh) filed in the A/c is pending before DRT Jaipur, Wherein no. stay/ restrain order i sale is passed/ operational AM to 03.00 PM

(Partner cum guarantor) Add. Mr. of the Sushings Khasra No. 195, West-Road 40 ft., North-Kastuna Fabrics. Prese Khasra No. 194 Old Industrial Area Shakuntla Oil Mills, South-Arun Textiles presently it is M/s Otto Bushings Khasra No. 195. Itarana Road Alwar (Raj) 301001, Sh. Ashok Kumar Jain S/o Sh. Dharam Chand Jain (Partner cum guarantor) Add. Khasra No. 194 Old Industrial Area Itarana Road Alwar (Raj) 301001, **Smt. Uma Goyal W**/O.Lt. Sh. Ram Avtar Goyal (Guarantor) Add. Plot No. 77, Scheme Shanti Kunj, Alwar, **Pragati Goyal** D/o Lt. Sh. Ram Avtar Goyal (Guarantor) Add. Plot No. 77, Scheme Shanti Kunj, Alwar, **Arpli Goyal** S/o Lt. Sh. Ram Avtar Goyal (Guarantor) Add. Plot No. 77, Scheme Shanti Kunj, Alwar, **Smt. Sangeeta Jain W**/o Sh. Raj Kumar Jain

(Guarantor) Add. 1 Khasra No. 194 Old Industrial Area Itarana Road Alwar (Raj) 301001, [GUARATHOT, AGG. IKRASTA NO. 194 UNI MOUSTHA FREA INFARMA DUAD A WAS (MAI) SO LOUT,

TERMS AND CONDITIONS-1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHERE IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" without movable itmes. 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://wwww.instoecommerce.com on above mentioned table as per the timings given in the table. 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer <a href="https://www.bapl.in.www.pnbindla.in">https://www.bapl.in.www.pnbindla.in</a>
Place: Alwar

Secured Creditor Authorized Officer

Punish National Bank

STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

APPENDIX-IV (RULE-8(1)) POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) ere as The undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitization and econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise Powers conferred under Section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued a demand notice dated 06.10.2022 Calling upon the borrowers Mr. Bhagwan lai mail
S/o Hajari Lai Mail & Mr. Hajari Lai Mail S/o Ram Chandra Mail and Guarantor Mr. Bharu Lai Mail S/o Hajari Lai with our Bhilwara Main Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 21,36,403/- (Rupees Twenty One lakh Thirty Six thousand Four hundred Three rupees Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public eneral that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise o owers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules o is 22nd day of May of the year 2023.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property ar any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount of Rs. 22,45,669/- (Rupees Twenty Two Lakth Forty Five Thousand Six Hundred Sixty Nine only) as on 22.05.2023 with further interest and other/Legal charges thereon. We draw attention to the provisions of Section 13(6) of the SARFAESI Act and the Rules framed there

er which deals with your rights of redemption over the securitie Description of the immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Mali Mohalla, Mod ka Nimbahera. Tehsil Asind, District Bhilwara, Rajasthan-311026 Extent Area of Land 1950 Sqf Boundaries as per Title deed North: Road, East: Property of Sh. Nand Ram, West Property of Sh. Chhagna, South: Agri Land

Authorised Officer, (Indian Bank) Date: 22.05.2023 Place: Bhilwara

> **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 14.03.2023 calling upon the Borrower(s) IMRAN KHAN, AAMIR KHAN, ASLAM KHAN AND ACHCHIVI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.1,45,67,623.24 (Rupees One Crore Forty Five Lakhs Sixty Seven Thousand Six Hundred Twenty Three and Palse Twenty Four only) against Loan Account No. HDHLRHN00487200 (Earlier LAN Code 00002296 of DHFL) as on 13.03.2023 and interest thereon within 60 days from the date of receipt

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 19.05.2023.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.1.45.67.623.24 (Rupees One Crore Forty Five Lakhs Sixty Seven Thousand Six Hundred Twenty Three and Palse Twenty Four only) as on 13.03.2023 and interest thereon

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

### **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE BUILT-UP FREE HOLD ENTIRE PROPERTY/HOUSE BEARING NO. 7-B, NEW NO. NA 159, AREA MEASURING 200 SQ. YARDS OUT OF KHASRA NO. 21/11. WITH ALL ITS ROOF / TERRACE RIGHTS UP TO SKY HIGH & STRUCTURE STANDING THEREON . SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KHYALA, DELHI STATE DELHI NOW COLONY KNOWN AS VISHNU GARDEN EXTN., (PART-B NORTH ) NEW DELHI-110018 WITH ELECTRICITY WATER CONNECTION AND SEWER CONNCECTION WITH ALL ITS FITTINGS AND FIXTURE INSTALLED THEREIN AND WITH ALL ITS RIGHTS INTEREST DEPOSITS EASEMENTS TITLE OPTIONS PRIVILAGES APPURTENANCES ATTACHED THERETO WITH ALL ITS FREE HOLD RIGHTS OF THE LAND BENEATH THE SAID PROPERTY WHICH IS **BOUNDED AS UNDER:** 

EAST : SERVICE LANE 10 FT. WEST : 20 FT. WIDE ROAD NORTH: PLOT NO. NA 158 SOUTH: PLOT NO. NA 160

Date: 19.05.2023 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: NEW DELHI

Zonal Office:- SCO 120-122, First Floor, Sector 'Chandigarh - 160 017, Ph.: 0172-2713010, E-mail: cmmarc\_chd@mahabank.co.in E-mail: cmmarc\_chd@mahabank.co.in Head Office: 'LOKMANGAL', 1501 ShlvaJinagar, PUNE 411 005

**E-AUCTION** SALE NOTICE

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES Date & Time of E-Auction: 27.06.2023,

Inspection Date & Time of the Property 13.06.2023 & 14.06.2023 by appointment between 11:00 AM to 5:00 PM Tuesday 11:00 AM to 2:00 PM (with auto extension for 10 minutes in case bid is placed within last 5 minutes) E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforce

of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Bank of Maharashtra, the possession of which have been taken by the Authorised Officer of Ban of Maharashtra, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" for 27.06.2023, for recovery of the balance due to the Bank of Maharashtra from the Borrower (s) and Guarantor(s) as mentioned in the table. Details of the Borrower and Guarantor/s, amount due, Short description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type reserve price and the earnest money deposit are also given as under:-

r.	Branch Name / Name &	Brief Description of	Total Liabilities as	Reserve	Earnest Money
D.	Address of the Borrower(s) /	Property/ies	on specified Date	Price	Deposit / Bid
	Guarantor(s) / Mortgagor(s)				Increase Amount
	Branch: Palam Vihar, Gurgaon,			Rs.	Rs. 2,02,900/-
	Bank of Maharashtra, SCO 11,	LG-020, situated at Convenient	plus interest w.e.f.	20,29,000/-	Rs. 10,000/-
	Sector 23-A, Near Golden Tulip	Centre, Gwal Pahari, Gurgaon,	03.06.2022 and other	expenses and	cost incurred (Less
	Hotel, Gurgaon. Branch	Harvana admeasuring 24.80	recovery affected if any	after <b>03.06.20</b> 2	22).
	Manager: Mr. Ms. Geeta Kumari Sharma, M.: 86195 18984	Sq. Mtr. (i.e. 267 Sq. Ft.) owned b	v Smt. Saroi W/o Sh. N	arender.	
	Sharma, M.: 86195 18984		,a) **********************************		

E-mail: brmgr1308@mahabank.co.in Borrower(s):- M/s S.K. Mobility (through its Proprietor Sh. Narender), H. No. 310, Village Caterpuri, Shiv Mandir, Gurgaon. Guarantor(s):- Smt. Saroj W/o Sh. Narender, H. No. 310, Village Caterpuri, Shiv Mandir, Gurgaon.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link "https://www.bankofmaharashtra.in/properties for sale provided in the Bank's website and also on E-Bikray Portal (www.ibapi.in).

Place: Chandigarh

Name of the Borrower (B) / Guarantors (G) / with Address

HeroFinCorp.

### HERO FINCORP LIMITED

CIN: U74899DL1991PLC046774 Registered Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Tel: 011-49487150, Fax: 011-49487150, Email: litigation@herofincorp.com

Address of the

Security charged covered under Auction

Authorised Officer, Bank of Maharashtra

Website: www.herofincorp.com

"APPENDIX-IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY IN TERMS OF SECURITISATION AND

RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH

PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT RULES, 2002)

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers (B) that the below mentioned immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), the physical possession mentioned below of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), will be sold on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" on below mentioned date, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from the Borrower. The Reserve Price is mentioned below and the earnest money to be deposited is mentioned respectively.


Also at: HIG, Flat No.216, 4th Floor, Sec-18B, Multi	Roof Rights and Second	Rs.3,08,00,000/-
rivate Limited, having its office at C-3/4, 2 <sup>nd</sup> Floor, ni-110058. Also at: HIG, Flat No.216, 4 <sup>th</sup> Floor, Sec-	Rights Built on Property Bearing No. F-9, Area	EMD Amount 10% of the Reserve Price
ivate Limited, having its office at C-3/4, 2 <sup>nd</sup> Floor, ii-110058. Also at: HIG, Flat No.216, 4 <sup>th</sup> Floor, Sec-	Situated at Vikaspuri, New Delhi bounded as:	Rs.30,80,000/-
18B, Multi Storey Block, Dwarka, New Delhi-110078. 4. Mr. Kamlesh Kumar, residing at HIG, Flat No.216, 4th Floor, Sec-18B, Multi Storey Block, Dwarka, New Delhi-110078		Incremental Amount
	West: Plot No.8 West: Path	Rs.1,00,000/-
Date/Time of On-Site Inspection of Property with Name of Authorized Officer	of EMD and Request	of E-Auction
11.06.2023, 10.00 AM to 5.00 PM Authorized Officer: Mr. Sanjeev Kumar Mob: 9999300998	KYC, Documents, Pan	extension of 5
		13.06.2023
֡	Also at: HIG, Flat No.216, 4th Floor, Sec-18B, Multi w Delhi-110078 w Delhi-110078. Also at: HIG, Flat No.216, 4th Floor, Sectoraria, New Delhi-110078. Hoor, Sectoraria, New Delhi-110078. HiG, Flat No.216, 4th Floor, Sectoraria, New Delhi-110078. High Floor, Sectoraria, New Delhi-110078. High Floor, Sectoraria, New Delhi-110078. Delhi-110078. High Floor, Sectoraria, New Delhi-110078. Del	Also at: HIG, Flat No.216, 4th Floor, Sec-18B, Multi robate High Floor without Roof Rights and Second Floor Without Roof Rights Built on Property Bearing No. F-9, Area Measuring 324 Sq. mtrs. Struated Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited, having its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its office at C-3/4, 2nd Floor, Sec-Wate Limited at Vikaspuri, New Delhi-110078. Its off

The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS / NEFT or by way of Demand Draft / Pay order in the Account No.00030310016156, Name of the Beneficiary: "Hero Fincorp Limited", IFSC Code: HDFC0000003 erms and Conditions of the E-Auction:

- E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recoun Basis" and will be conducted "online".

  The E-Auction will be conducted through M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Helpline No(s): 07961200576/544/594.
- 596/531/583/569, 6351896643 and E-mail on support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) at their well portal https://sarfaesi.auctiontiger.net.
- There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. However, the intending bidder should make their own independent enquires regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does no constitute and will not be deemed to constitute ant commitment or any representation of Hero Fincorp Limited. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party clain
- sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the followers. website: https://sarfaesi.auctiontiger.net.

Date: 24.05.2023, Place: Delhi Sd/- Authorized Officer, Hero Fincorp Limited



## Extract of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023

Standalone Consolidated **Particulars** Quarter ended Quarter ended Year ended Year ended 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 (Audited) (Audited) Audited) (Audited) (Audited) (udited (Audited) (Audited) Total Income from Operations 49.675 32,360 293.541 242,196 50.377 32,308 293.835 241,700 2. Profit before exceptional items and tax 24,317 1,887 176,176 136,670 25,487 2,901 176,729 138,308 3. Profit before tax 23,109 (439)173,213 134,344 24,279 575 173,766 135,982 4. Net Profit after tax for the period 97,752 1,721 1,361 (76)136,345 749 135,930 98.980 Total Comprehensive Income after tax 1,281 (82)136,143 97,589 1,640 743 135,727 98,817 Paid-up equity share capital (Face value of share ₹ 10/- each) 392,980 392,980 392,980 392,980 392,980 392,980 392,980 392,980 Other Equity excluding Revaluation Reserve 919,881 992,974 989,217 919.881 989,217 992,974 924.054 924,054 8. Net Worth 1.382.197 1.312.861 1.382.197 1.312.861 1.385.954 1,317,034 1.385.954 1,317,034 9. Paid up Debt Capital 719,936 555,612 719,936 555,612 1,407,171 692,933 1,407,171 692,933 Earnings Per Share for continuing operations (before net movement in regulatory deferral account balance) (of ₹ 10/- each) (not annualised) (in ₹) Basic & Diluted 0.37 (0.07)3.50 2.60 3.49 2.63 0.38 (0.05)Earnings Per Share for continuing operations (after net movement in regulatory deferral account balance) (of ₹ 10/- each) (not annualised) (in ₹) 0.03 3.47 2.49 0.04 0.023.46 2.52 0.52 0.42 12. Debt Equity Ratio 0.52 0.421.01 0.53 1.01 0.53 2.41 1.59 4.05 5.26 2.68 1.69 4.22 5.31 13. Debt Service Coverage Ratio 5.24 5.29 10.43 21.17 6.77 5.64 11.87 21.35 14. Interest Service Coverage Ratio Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the



CIN: L40101HP1988GOI008409

Regd.Office: SJVN Corporate Office Complex, Telephone: 0177-2660075 Shanan, Shimla-171006. HP (INDIA) Liaison Office: NBCC Complex, Tower-I, East Kidwai Nagar, New Delhi.

Fax: 0177-2660071 Email: investor.relations@sivn.nic.in

Place : Shimla Website: www.sjvn.nic.in Dated: 22nd May, 2023

section of our website http://www.sjvn.nic.in and under Corporate Section of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at http://www.bseindia.com & http://www.nseindia.com. 2. The Board of Directors have recommended final dividend of ₹0.62 per share (on face value of ₹10/each) for the year 2022-23 in its meeting held on 22.05.2023. The total dividend(including interim dividend) is ₹1.77 per share (Previous Year: ₹1.70 per share) (on face value of ₹10/- each). For and on Behalf of Board of Directors

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements)

Regulations, 2015. The full format of the Financial Results of the Company are available on the investor

(Nand Lal Sharma) Chairman & Managing Director DIN:03495554



## सेवा गृह ऋण लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : पहली मंजिल, 216/सी-12, पुराना नं. सी-12, प्लाट नं. 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

नियम 8(1) आधिपत्य सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जबिक, अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिमूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का संपठित नियम 3 के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके मांग नोटिस जारी कर, ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार से सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अन्दर ऋण राशि अदा करने की

जनवा गर्गाङ् जा: ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार एवं सर्व साघारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम् की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का

पत्र । दयो जाती है। के अघाहिस्ताबेरकता ने उत्तर आधानयन को घारों 13(4) संपाठत उक्त नियम के नियम हैं। 17 के तहत प्रदेत शाक्तयों की प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सामान्य रूप से जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **सेवा गृह ऋणा लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें नीचे दी गई बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज और आकर्स्मिक व्यय, लागतें शामिल हैं। ऋणी का ध्यान प्रतिभूति आस्तिया के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की घारा 13 की उपघारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

]	ऋणी/बंधकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि (रु.)	सुचना दिनांक आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति का विवरण
	<ol> <li>1. श्रीमती सुनीता पति श्री भूप सिंह</li> <li>2. श्री भूप सिंह पिता श्री कल्लू सिंह</li> <li>3. श्री लाल सिंह पिता श्री मंगल सिंह</li> </ol>	Rs. 2,50,972.15/- + ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, उस पर लागत	1 <u>9.12.2022</u> 19.05.2023	खसरा नं. 1168, ग्राम लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 37.5 वर्गगज है। चर्तुसीमा : पूर्वः प्लॉट दीगर मालिक, पश्चिम : रास्ता 13 फीट चौड़ा , उत्तर : संपत्ति दीगर मालिक, दक्षिण : प्लॉट दीगर मालिक

स्थान : दिल्ली दिनांक: 19.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी/ मुख्य प्रबंधक सेवा गृह ऋण लिमिटेड

# Arcil

### एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः दि रुबी, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई-400028

कब्जा सूचना जबिक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के अधीन प्रत्त अधिनयर के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के अधीन प्रत्त अधिकारों के अनुसरण में, उक्त अधिनयम की घारा 13(2) के अधीन प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी उक्त स्वाचान के अपो उक्तिखित राशि के साथ सूचना में विशेष अधिकार के साथ सूचना में विशेष प्रयोज्य दर्रों पर ब्याज और साथ ही मुगतान न होने या वसूली न होने तक आगे लागू ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सिहत राशि चुकाने के लिए विशेष की मांग सूचना पत्र जारी किया था। अचल संपत्ति सिहत नीचे विशेत ऋण खाता सं. के साथ इसकी अंतर्निहित प्रतिभृति(यों) को सरफेसी अधिनियम, 2002 की घारा 5 की शतौं के अनुसार मुख्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("एमएचएफसीएल") ("समनुदेशक") से एआरसीआईएल-रिटेल लोन पोर्टफोलियों –086-ए-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत एआरसीआईल द्वारा अर्जित किया गया था।

क्र. सं.	ऋणी का नाम/सह–ऋणी का नाम ऋण खाता सं./	कुल बकाया राशि	कदम उठाए गए
1	राधेस्थाम भैक गदरी और गीता गदरी एलएएन सं.: 13390087326 सेलिंग बैंक-मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एमएचएफसीएल)	रु.8,91,946.76/– (रुगये आठ लाख इक्यानबे हजार नौ सौ छियालीस और पैसे छियहत्तर मात्र) दिनांक 19–मई–2021 को	19-मई-2023 को भौतिक कब्जा
	प्रतिभत संपत्तिः गिरवी रखी संपत्ति के सभी एवं अंश-पड़ा नं. 16. पिपली	. कालंदिया रोड. सवाना, राजस्थान, भीलवाड	T. 311025.

भारत उक्त ऋणियों द्वारा नियत धनराशि न चुकाने के कारण, विशेष रूप से यहाँ वर्णित ऋणियों एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित तिथियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनयम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ उद्धिखत संपत्तियाँ/प्रतिभृत परिसंपतियों का भीतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से यहाँ वर्णित ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहाँ उद्धिखित संपत्तियों/प्रतिभृत परिसंपत्तियों के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं यहाँ उद्धिखत संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के साथ किसी प्रकार का सौदा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया हुआ रहेगा।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एआरसीआईएल-रिटेल लोन पोर्टफोलियो-086-ए-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में स्थानः राजस्थान तिथिः 24–मई–2023

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी . होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार इमरान खान, आमिर खान, असलम खान और अछीवी को 14.03.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HDHLRHN00487200 (डीएचएफएल का पूर्व लैन कोड 00002298) की राशि रू.1,45,67,623.24 (रूपये एक करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार छह सौ तेईस और चौबीस पैसे मात्र) और 13.03.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख

से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अभोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 19.05.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.1,45,67,623.24 (रूपये एक करोड़ पैंतालीस लाख सङ्सठ हजार छह सौ तेईस और चौबीस पैसे मात्र) 13.03.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

बिल्ट-अप फ्री होल्ड पूरी संपत्ति / हाउस बियरिंग नं. 7-बी के सभी भाग और खंड, न्यु नं. एनए 159, एरिया माप 200 स्ववेअर यार्डस् खसरा नं. 21/11 में से। आकाश की ऊंचाई तक अपने सभी छत/टेरेस के अधिकार और उस पर खड़ी संरचना के साथ, गाँव ख़याला के एरिया में स्थित, दिल्ली राज्य दिल्ली अब विष्णु गार्डन एक्सटेंशन से पहचाने जानेवाली कॉलोनी, (भाग-बी उत्तर) नई दिल्ली-110018, इसमें स्थापित फिटिंग्स और फिक्स्वर के साथ बिजली पानी कनेक्शन और सीवर कनेक्शन के साथ और उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के अपने सभी फ्री होल्ड अधिकारों के साथ इसके सभी संलग्न अधिकार ब्याज जमा आसान शीर्षक विकल्प

विशेषाधिकार अपुर्टन्सेस के साथ, जो निम्ननुसार परिबद्ध है : पूर्व : सर्विस लेन 10 फीट पश्चिम : 20 फीट चौड़ी सड़क उत्तर : प्लॉट नं. एनए 158 दक्षिण : प्लॉट नं, एनए 160

दिनांक : 19.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

### एसपीएल इंडस्ट्रीज लि. पंजीकृत कार्यालयः २०२, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

ईमेलः cs@spllimited.com I CIN: L74899DL1991PLC062744

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

31.03.2023				
को समाप्त तिमाही	31.12.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
5,762.81	6,328.96	8,049.80	29,836.57	20,791.26
515.28	676.05	1,005.67	3,291.78	2,865.52
429.48	676.05	1,005.67	3,205.99	2,865.52
339.31	489.88	701.77	2,383.59	2,108.42
353.97	489.88	639.49	2,398.25	2,100.14
2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
				9.88 9.88
		•		
1.17	1.69 1.69	2.42 2.42	8.22 8.22	7.27 7.27
	तिमाडी लेखापपीक्षित 5,762.81 515.28 429.48 339.31 353.97 2,900.00	तिमाही तिमाही लेखापशैक्षित अलेखापशैक्षित अलेखापशैक्षित अलेखापशैक्षित 5,762.81 6,328.96 676.05 429.48 676.05 339.31 489.88 353.97 489.88 2,900.00 2,900.00 1.78 2.33 1.78 2.33 1.78 2.33 1.78 1.69	तिमाही तिमाही तिमाही तिमाही लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित तेलखापरीक्षित तेलखापरीक्षित तेलखापरीक्षित 5,762.81 6,328.96 8,049.80 515.28 676.05 1,005.67 429.48 676.05 1,005.67 339.31 489.88 701.77 353.97 489.88 639.49 2,900.00 2,900.00 2,900.00 1.78 2.33 3.47 1.78 2.33 3.47 1.78 2.33 3.47 1.78 2.33 3.47	तिमाही         तिमाही         तिमाही         वर्ष           लेखापरीक्षित         अलेखापरीक्षित         लेखापरीक्षित         लेखापरीक्षित         लेखापरीक्षित         लेखापरीक्षित         लेखापरीक्षित         29,836.57           515.28         676.05         1,005.67         3,291.78           429.48         676.05         1,005.67         3,205.99           339.31         489.88         701.77         2,383.59           353.97         489.88         639.49         2,398.25           2,900.00         2,900.00         2,900.00         2,900.00           1.78         2.33         3.47         11.35           1.78         2.33         3.47         11.35           1.17         1.69         2.42         8.22

. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षिण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निवेशक मंडल द्वारा 22 मई, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए परिणामों का सांविधिक लेखापरीक्षकों ने समीक्षा की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथानिर्धारित, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा तर मान्य लेखाकरण कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के अनुपालन में विवरण तैयार किए गए हैं। कंपनी ने इंड-एएस 01 अप्रैल, 2017 से अपनाया।

निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 मई, 2023 को आयोजित हुई और उपयुक्त परिणाम अनुमोदित किए गए। इंड एएस 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार कंपनी ने एकल वित्तीय परिणामों के भाग के रूप में केवल खंड सूचना प्रकट की हैं।

अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी ने इंड-एएस 115- ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व को अपनाया। इंड-एएस 115 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणा पर नगण्य है।

न नाज्य है। 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कंपनी ने इंड-एएस 116— लीज अपनाया। इंड-एएस 116 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही / वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ माह के प्रकाशित

आंकड़ों के बीच अंतर का प्रस्तत करते हैं पूर्व वर्ष / अविधयों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है

थान : फरीदाबाद

हस्ता. 🗸 — मुकेश कुमार अग्रवाल दिनांकः 22.05.2023 (पबंध निदेशक)

### ई-नीलामी बिक्री सूचना (आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों 32 और 33 के तहत, विनियमन 2016) एस आर के किचन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

एस आर के किचन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक, एतदुद्वारा, SRK की परिसंपत्तियों जिन्हें यहाँ सूचीबद्ध किया गया है कि ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए पात्र बोलीदाताओं को नीचे बताए गए नीलामी कार्यक्रम तथा ''जैसा है, जो कुछ भी है और उपचार रहित आधार पर है'' के अनुसार आमंत्रित करते हैं। ई-नीलामी के विस्तृत नियमों, शर्तों और प्रक्रिया को (https://www.bankeauctions.com) से डाउनलोड कर सकते है।

लॉट नं0	परिसंपत्तियों का विवरण		ई एम डी (लाख में)	बोली वृद्धि राशि (लाख में)	
	लीज होल्ड (पट्टे)* कि भूमि 2199 वर्ग मीटर तथा उस पर निर्मित टीन अच्छादित फैक्ट्री बिल्डिंग (कुल निर्मित क्षेत्रफल 1572.18 वर्ग मीटर)। जिसमें फैक्ट्री के अन्दर निष्प्रयोज्य हो चुकी मशीनरी भी शामिल है जो कि प्लाट संख्या 219 पीतमपुरा इंडीस्ट्रयल स्टेट सेक्टर III जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है।	100 to 0 t	8.20	0.50	

\*लीज होल्ड (पट्टे) के अधिकार को मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य निगम द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसको अवैध घोषित करने हेतु माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण इलाहाबाव के समक्ष वाद संख्या IA No 131/2023 In CP (IB) No 191/ALD/2018 दाखिल है।

**ई-नीलामी अनुसूची:** बोली प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06.06.2023 योग्य बोलीदाताओं की घोषणा की तिथि 07.06.2023 निरीक्षण की अंतिम तिथि 14.06.2023 ईएमडी की अंतिम तिथि 15.06.2023 (सायं 05.00 बजे तक) नीलामी की तिथि 17.06.2023 (अपरान्ह 12:15 से 02:15 तक) इच्छक आवेदक बैंक ऑफ इण्डिया (इलाहाबाद ब्रान्च) के खाता संख्याः 700021110000007 लाभार्थी नामः SRK Kitchen Appliances Private Limited (In Liquidation आईएफएससी कोडः BKID0007000 में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अथवा "SRK Kitchen Appliances Private Limited (In Liquidation)" के पक्ष में प्रयागराज मे देय किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से; ईएमडी राशि जमा कर सकते है।

इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी के विस्तृत नियमों, शताँ और प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढ़े और पूर्ण बोली प्रपत्र समस्त सलंग्नों तथा ईएमडी जमा करने के प्रमाण के साथ अंतिम तिथि/समय से पहले परिसमापक को हाई कॉपी में प्रेषित करें तथा ई-नीलामी वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर अपलोड करें। आवेदक किसी सहायता के लिए ई-मेल liquidator.srk@gmail.com फोनः 9519652079 (परिसमापक कार्यालय) अथवा mithalesh.kumar@c1indian.com 7080804466 (टीम ई-ऑक्शन एजेंसी) से सम्पर्क करें।

शितांशु शर्मा पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/ICAI-N-00400/2022-2023/14205 परिसमापकः एस आर के किचन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ई-मेल : ip.shitanshu@gmail.com Ph: +91-9580190610 ऑफिस : 195/71 टैगोर टाउन, प्रयागराज-211002

## KHADIM KHADIM INDIA LIMITED

Registered Office: 7th Floor, Tower C, DLF IT Park, 08 Major Arterial Road, Block -AF, New Town (Rajarhat) Kolkata -700156, West Bengal, India

> Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500 e-mail: compliance@khadims.com CIN: L19129WB1981PLC034337

## Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2023

(₹ in million)

	Particulars	Standalone			Consolidated		
SI. No.		3 months ended 31st March, 2023	12 months ended 31st March, 2023	Corresponding 3 months ended 31st March, 2022	3 months ended 31st March, 2023	12 months ended 31st March, 2023	Corresponding 3 months ended 31st March, 2022
1.	Total Income from Operations	1,592.08	6,602.64	1,489.50	1,592.08	6,602.64	1,489.50
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	51.21	225.71	57.23	51.00	225.42	57.17
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	51.21	225.71	57.23	51.00	225.42	57.17
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	43.11	175.07	48.24	42.90	174.78	48.18
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	43.79	177.19	48.72	43.57	176.89	48.65
6.	Equity Share Capital	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		2,073.85			2,072.52	
8.	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)						
J.	1. Basic (₹) 2. Diluted (₹)	2.40 2.40	9.74 9.74	2.68 2.68	2.39 2.39	9.73 9.73	2.68 2.68

The above is an extract of the detailed format of Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 23rd May, 2023. The full format of the Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.khadims.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

Place: Kolkata Date: May 23, 2023 For and on behalf of the Board of Directors Siddhartha Roy Burman Chairman & Managing Director

DIN: 00043715

BAJAJ

FINSERV
वजाज फाइनेंस लिमिटेड
निगमित कार्यालय: तीसरी मंजिल, पंचशील टेक पार्क, विमन नगर, पुणे—411014, महाराष्ट्र, भारत — 411014
शाखा कार्यालय: 11वीं कार्यालय नं. 1152 अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट नं. ईं5,
नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034

कब्जा सूँचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) (परिशिष्ट—IV)

प्रतिन्तात हित (प्रवितन) नियमावला, 2002 के नियम 8(1) (पाराशष्ट—IV) चूंकि, वित्तीय परिसंपितायों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के जियम 3 के साथ पिठत थारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शिक्तियों के अनुपालन में मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 80 दिनों के भीतर सूचना में राशि का मुगतान करने के लिए यहां नीचे वर्णित ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) को मांग सूचना(ए) जारी की थी। ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की बेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन उसपर भावी ब्याज के सिहत यहां नीचे वर्णित अनुसार राशि(ओं) के लिए बीएफएल के पहले संपार्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन उसपर भावी ब्याज के सिहत यहां नीचे वर्णित अनुसार राशि(ओं) के लिए बीएफएल के पहले संपार्ति के साथ किया। गया कोई भी लेन—देन उसपर भावी ब्याज के सिहत यहां नीचे वर्णित अनुसार राशि(ओं) के लिए बीएफएल के पहले प्रभार का विषय होगा।

ऋणी(ऑ) / गारंटर(ऑ) के नाम	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण	मांग सूचना	কब्जा
एलएएन नं., शाखा का नाम)	(अचल संपत्ति )	तिथि व राशि	तिथि
शाखा: दिल्ली , LAN: 4010HL48913619 and 4010HL48913909 and 4010HL48914248 ऋणी / सह—ऋणी । रोहित कुमार गुप्ता (ऋणी) प्लॉट नं. ६१, दूसरी व तीसरी मंजिल ब्लॉक डी, पॉकेट 1 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली, 110085 2. प्रदीप कुमार गुप्ता (सह—ऋणी) प्लॉट नं. ६१, दूसरी व तीसरी मंजिल ब्लॉक डी, पॉकेट 1 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली, 110085 3. निर्मला गुप्ता (सह—ऋणी) प्लॉट नं. ६१, दूसरी व तीसरी मंजिल ब्लॉक डी, पॉकेट 1 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली, 110085	गैर कृषि संपत्तियों के सभी भाग व पार्सल, निम्नानुसार हैं: पूरी दूसरी व तीसरी मंजिल छत अधिकारों के साथ आकाश तक फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति बियरिंग नं. 61, प्लींध क्षेत्र माप 48 वर्ग मीटर प्रत्येक मंजिल पर ब्लॉक डी पॉकेट सेक्टर 16 रोहिणी आवासीय स्कीम रोहिणी दिल्ली के लेआउट प्लान पर स्थित पूर्व : प्लॉट नं. 60, पश्चिम : प्लॉट नं. 62, उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : 9 मी रोड	03 मार्च, 2023 रु. 67,44,205/- (रुपए सइसठ लाख चवालीस हजार दो सौ पांच केवल)	22 मई 23

स्थान : दिल्ली दिनांक : 24.05.2023

HeroFinCorp.

## हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

टां । U7499D1 1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालय : ३4, कम्प्युनिटी सेन्टर, बस्त लोक बसंत विकार नई दिल्ली-110037
फोन : 011-49487180, केक्स: 011-49487180, ईनेल: litigation@herofincorp.com,
वेबसाहट: www.herofincorp.com
''परिशिष्ट-IV-A'' (देखें नियम 8(६) के प्रावधान) अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन)
नियमों, 2002 के सहपठित नियम 8(६)के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उघारकर्ताओं (बी) को सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित प्रत्यीमूत परिसंपत्तियां प्रत्यामूत ऋणदाता(हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) को बंधक/प्रमारित हैं, निम्न वर्णित प्रत्यामूत परिसंपत्ति का मौतिक कब्जा प्रत्यामूत ऋणदाता(हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को प्रत्यामृत ऋणदाता के बकाया, उधारकर्ताओं) से बकाया राशि की वसूली के लिए वर्णित दिनांक को ''जो जहां है आधार, जो है जैसा है आधार, और वहां जो कुछ मी है आधार '' और ''दायित्वरहित आधार'' पर बचा जाएगा।आरक्षित मूल्य और अग्रीम जमा राशि नीचे उल्लेखित है।

•	)/ गारंटरों (जी)/के नाम संग पता	नीलामी के तहत कवर की गई प्रमारित प्रत्याभूत का पता	आरक्षित मूल्य (आर.पी)
<ol> <li>मैसर्स विनसॉफ्ट टैक्नोलॉजी दिल्ली—110058, इसके अल</li> </ol>	न, जिसका पता सी–3/4, दूसरा तल, प्लॉट सं. 4, जनकपुरी, ावा : एचआईजी, फ्लैट सं. 216, चौथा तल, सेक्टर–188, मल्टी	तलघर तल बिना छत अधिकारों और दूसरा तल	₹. 3,08,00,000/-
चीतवर्ग १०० प्रत्यी बनोवी स्व	वेट लिमिटेड,जिसका पता सी-3/4, दूसरा तल, प्लॉट सं.4, , इसके अलावा : एचआईजी, फ्लैट सं. 218, चौथा तल,	बिना छत अधिकारों निर्मित संपत्ति धारक सं. एव–9 पर, मापक क्षेत्र 324 वर्ग मीटर, स्थित विकासपुरी, नई दिल्ली, सीमाक: उत्तर: प्लॉट सं. 10 और 11, दक्षिण: 13.5 मीटर सङक,	आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी राशि
<ol> <li>मैसर्स विनसॉफ्ट एजूकेट प्राइ जनकपुरी, दिल्ली—110058</li> </ol>	भूर, भारता, नहारकाना 10018 वेद तिमिटेड, जिसका पता सी–3/4, दूसरा तल, प्लॉट सं.4, इसके अलावा : एचआईजी, फ्लैट सं. 216, चौथा तल, किं, द्वारका, नई दिल्ली–110078		₹. 30,80,000/–
4. श्री कमलेश कुमार, निवासी ए	नआईजी, फ्लैंट सं. 216, चौथा तल, सेक्टर—188, मल्टी स्टोरी 0078		बोलीवृद्धी राशि
<ol> <li>श्रीमती नीतू कुमार, निवासी ए ब्लॉक, द्वारका, नई दिल्ली–11</li> </ol>	क्षित्र कार्या, विश्वपार, निवासी एवआईजी, पलैट सं. 216, चौथा तल, सेक्टर–188, मल्टी स्टोरी ब्लॉक, द्वारका, नई दिल्ली–110078		₹. 1,00,000/-
जिस संपत्ति की बक्री की जा रही है उसकी वसूली के लिए बकाया देय राशि	प्राधिकृत अधिकारी के साथ संपत्ति का साईट पर नीरिक्षण का समय और दिनांक	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक और भागीदारी का	ई—नीलामी का समय औरविनांक
रुपये 4,36,89,122.34/— (रुपये चार करोड़ छतीस लाख	दि. 11.06.2023 पूर्वाह्न 10 बजे से अर्पाह्न 5 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : श्री संजीव कुमार मोबाईल सं. : 9999300998	अनुरोध पत्र, केवाईसी, वस्तावेजॉ पैन कार्ड, ईएमडी का प्रूफ आदि	, स्वविस्तारित 5 मिनट प्रत्येक के सहित
नंवासी हजार एक सौ बाईस और चौतीस पैसा मात्र) दिनांक 09.12.2022 को देय	ईमेल : sanjeev.kumar2@herofincorp.com आप श्री रमेश गिरी, मोबाईल सं. 9643468804 ईमेल : ramesh.giri@herofincorp.com से मी संपर्क करें	12.06.2023 को या उससे पहर अपिंक्ष 5 बजे तक और ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से	ने 13.06.2023 समय : 10 बजे से 01 बजे तक
इच्छुक खरीदारों / बोलीदाताओं को	या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या डिमांड ड्रॉफ्ट/	पे ऑर्डर के माध्यम से खाता सं. c	0030310016156

इएमडी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, लामार्थी का नाम : ''हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड'', आईएफसी कोड : एचडीएफसी0000003 ई—नीलामी के नियम और शर्ते :

ई—नीलामी ''जो है जैसा है आघार'', ''जो है जहां है आघार''और' 'वहां जो कुछ भी है आघार'' और'' दायित्व रहित आघार'' पर आयोजित किया जाये ई-नीलामा ''जो है जैसा हुआघार ', 'जा हु जहा हु आधार आर वहा जा छुछ मा हु आधार आर पायरपराकरा जावार भर जावा। जाराज और इसे ''ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। ई-नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योर्स टेक्नोजीज मिमेटेड(हेल्पलाइन नंबर(रॉ) 07961200576/544/534/594/596/531/583/569/

इन्नालान नित्त इन्त्रायवार दर्गालाज निर्देश हरन्ता है। निर्देश हरने हिन्दू करने हिन्दू करने हैं है। निर्देश हैं 635 1896843 के माध्यम से और ई-मेल support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net) पर उनके वेब पोर्टल पर https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी। प्रत्यामूत क्रणदाताओं के ज्ञान में वहाँ संपत्ति पर कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपने बोलियां प्रस्तुत करने से पहले, नीलामी में डाली गई बाघाओं, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / प्रमावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं किया गया है और इसे हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की किसी मी प्रतिबद्धता या किसी मी प्रतिनिधित्व का गठन करने के लिए नहीं

प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्यामूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देय के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों/निर्धारित के अ धीन होगी। ई—नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट:https://sarfaesi.auctiontiger.net में प्रकाशित की गई हैं।

दिनांक: 24.05.2023 स्थान : दिल्ली हस्ता/- प्रधिकृत अधिकारी, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुधूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B127), पंजीकृत कार्यालयः तल २. मुधूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2021 की अवधि तक NPA खातों & 31.01.2023 की अवधि तक नकली / कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 01.06.2023

Delhi-Model Town: MWS-650, Delhi-Kamla Nagar: MAL-2844, 4226, 4483, 4610, 4632, 4702, 4842, MDL-1432, 1690, 2372, 2383,

2384, 2418, 2427, 2429, 2430, 2455, 2467, 2470, 2557, 3165, 3191, 3230, MHP-936, MOS-236, MUL-5624, 7008, 8692, 1019 10999, 11005, 11090, 11111, 11532, 11543, 11550, 11558, 11568, 11586, 11603, 11649, 11869, 11911, 11913, 11927, 11939, 11965, 11969, 11975, 12000, 12055, 12098, 12107, 12134, 12135, 12145, 12154, 12156, 12227, 12236, 12287, 12289, 12298, 12300, 12310, 12314, 12341, 12353, 12368, 12370, Delhi-Mukherjee Nagar: MAL-2842, MDL-1799, 1800, 1824, 1825, 1838, 1841, 1864 965, 1979, 1986, MOL-157, MUL-7249, 7560, 8005, 8358, 8396, 8838, 8844, 8880, 8999, 9040, 9060, 9078, 9084, 9119, 9147 9154, 9194, 9251, 9264, 9305, 9324, 9361, 9394, 9407, 9409, 9413, 9430, 9433, 9484, 9641, **Delhi-Kingsway Camp**; MDL-197 MUL-2089, Delhi-Rana Pratap Bagh: MAL-3236, 3244, 3371, 3372, 3456, 3460, 3592, 3617, 3656, 3679, MDL-1530, 1693, 1761 1766, 1790, 1814, 1869, 1873, 1937, 2015, 2386, MUL-6495, 7652, 8543, 8676, 8749, 8773, 8891, 8922, 9042, 9049, 9066, 9085, 9095, 9120, 9123, 9150, 9159, 9160, 9186, 9229, 9280, 9296, 9303, 9324, 9367, Delhi-Adarsh Nagar: MAL-2970, 3143, 3287 MDL-2283, 2291, 2334, 2347, 2366, 2399, 2459, 2466, 2521, 2537, MUL-5721, 6311, 7641, 7908, 8112, 8157, 8167, 8286, 8296 8328, 8346, 8376, 8440, 8627, 8697, 8811, 8812, 8876, 8879, 8910, 8944, 8979, 8983, 9027, 9028, 9039, 9046, 9119, 9124, 9148 9391, MWS-6051, WBS-3, 4, Delhi-Vijay Nagar: MAL-1266, 1320, MDL-1006, 1025, 1029, 1064, 1224, MUL-4116, 4229, 4254 5378, 5684, 6006, 6104, 6126, 6161, 6185, 6265, 6279, 6353, 6377, 6378, 6379, 6380, 6382, 6390, 6431, 6444, 6468, 6481, 6573, Delhi-G T Road Adarsh Nagar: MAL-3240, 3363, 4347, 4499, 5042, 5174, 5309, 5386, 5387, 5634, MDL-413, 1172, 1874, 1963 2739, 2760, 2870, 2963, 3411, 3426, 3449, 3486, 3548, 3588, 3594, 3599, 3606, 3619, 3662, 3699, 3766, 3787, 3820, 3825, 3844 3886, 3950, 3980, 4026, 4197, 4857, MUL-7820, 8319, 8704, 9795, 11739, 12056, 12851, 14896, 14910, 15183, 15349, 15381 15583, 15754, 15881, 15955, 16000, 16142, 16225, 16243, 16306, 16445, 16608, 16738, 16788, 16866, 16878, 16933, 17002 17009, 17205, 17237, 17287, 17335, 17337, 17415, 17424, 17481, 17490, 17510, 17527, 17601, 17602, 17647, 17653, 17785, 17808, 17845, 17885, 17988, 17990, 18021, 18042, 18126, 18136, 18150, 18160, 18162, 18205, 18211, 18238, 18253, 18254 18263, 18267, 18278, 18311, 18312, 18325, 18362, 18375, 18388, 18405, 18411, 18424, 18465, 18473, 18483, 18508, 18517 18525, 18544, 18546, 18547, 18549, 18558, 18561, 18567, 18569, 18578, 18611, 18703, 18710, 18732, 18733, 18752, 18798 18816, 18929, 18938, 18965, 18966, 18994, 19018, 19120, 19277, 19534, 19805, MWS-5759, 6583, 6982, 8201, Delhi-West Sant Nagar: MAL-4140, 4194, 4357, 4692, 4927, 4928, 5008, 5183, 5204, 5332, 5408, 5590, 5693, 5710, 5812, 5813, MDL-2925, 3084 3521, 3672, 3724, 4053, 4091, 4106, 4107, 4180, 4190, 4203, 4260, 4264, 4284, 4305, 4329, 4352, 4363, 4436, 4490, 4497, 4633 5049, 5398, 5460, 5656, 5786, MUL-13642, 14107, 14767, 15212, 15430, 15570, 15788, 15868, 15948, 15974, 15997, 16048, 16135 16161, 16180, 16225, 16243, 16283, 16320, 16376, 16377, 16450, 16496, 16510, 16623, 16670, 16681, 16718, 16786, 16836 16917, 16948, 16980, 17016, 17041, 17046, 17065, 17077, 17086, 17116, 17123, 17128, 17165, 17178, 17199, 17200, 17215, 17257, 17278, 17279, 17286, 17295, 17303, 17334, 17367, 17374, 17376, 17377, 17382, 17392, 17410, 17414, 17420, 17445 17484, 17499, 17518, 17572, 17653, 17658, 17659, 17666, 17672, 17699, 17777, 17798, 17820, 17824, 17854, 17967, MWS-4889 6197, 7747, 8087, Delhi-Model Town Phase 1; BLS-3, 4, MAL-1294, 1437, 1853, 1905, 1923, 1964, 1993, MDL-1250, 1326, 1329 MIII-7378 7634 7657 7702 7713 7837 7882 7961 8035 8041 8058 8059 8096 8111 Delbi-Paramanand Colony MAI -1327 1366, MDL-873, 893, 1047, 1068, 1075, 1113, 1150, 1153, 1182, 1186, 1211, 1222, 1432, 1692, MHP-374, MOL-39, MUL-2291, 4556, 5914, 6473, 6565, 6726, 6822, 7029, 7042, 7082, 7094, 7102, 7110, 7117, 7132, 7148, 7163, 7177, 7190, 7192, 7205, 7211, 7284 MWS-1621, ZIP-1, Delhi-Burari: BLS-8, 49, 56, MAL-1786, 2094, 2375, 2690, 2930, 3272, 3300, 3365, 3405, MDL-1971, 2066 2095, 2113, 2151, 2211, 2243, 2253, 2271, 2297, 2412, 2817, 3251, MOL-232, MUL-8016, 9352, 9906, 9993, 10930, 11598, 11600 12667, 12757, 13143, 13518, 13693, 13792, 13799, 13876, 13888, 13891, 13956, 14030, 14036, 14103, 14158, 14168, 14255, 14257, 14258, 14259, 14306, 14339, 14345, 14348, 14357, 14364, 14369, 14392, 14411, 14428, 14441, 14443, 14473, 14474. 14476, 14485, 14496, 14530, 14589, 14623, 14624, 14627, 14662, 14664, 14692, 14703, 14732, 14743, 14744, 14755, 14756, 14760, 14768, 14770, 14800, 14801, 14820, 14835, 14862, 14882, 15050, Delhi-Swaroop Nagar: BLS-50, 53, 60, MAL-2687, 2891 2892, 2994, 2999, 3008, MDL-1831, 2124, 2194, 2216, 2224, 2260, 2302, 2335, 2349, 2541, 2545, 2726, 2899, 3024, 3046 MUL-5041, 6385, 6893, 6912, 6971, 7128, 7550, 7665, 7720, 7995, 8019, 8038, 8047, 8063, 8098, 8127, 8147, 8210, 8248, 8249 8281, 8282, 8314, 8315, 8358, 8365, 8376, 8402, 8447, 8460, 8464, 8497, 8509, 8524, 8544, 8548, 8549, 8552, 8591, 8592, 8599 8609, 8617, 8619, 8632, 8634, 8635, 8636, 8647, 8665, 8669, 8687, 8704, 8711, 8720, 8724, 8734, 8740, 8749, 8752, 8762, MWS-3182, Delhi-Gujranwala Town: MOL-101, Delhi-Derawal Nagar: MAL-2594, 2659, 2706, 2798, MDL-1847, 1850, 1863, 1885, 1894, 1981, 1983, 1985, 1996, 2376, MUL-3791, 4305, 4432, 5299, 5887, 8111, 8173, 8259, 8686, 8895, 8965, 9010, 9011, 9012 9046, 9155, 9188, 9257, 9258, 9290, 9309, 9358, 9377, 9381, 9411, 9427, 9459, 9562, 9648, 9690, 9701, 9722, 9731, 9737, 9744 9764, 9767, 9838, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9870, 9893, 9934, 9994, 9998, 10005, 10011, 10043, Delhi-Ashok Vihar MAL-2033, 2744, 2746, 2810, MDL-436, 1439, 1451, 1477, 1497, 1501, 1531, 1538, 1586, 1634, 1659, MUL-3240, 8446, 8642, 8975 9264, 9286, 9323, 9388, 9450, 9549, 9562, 9565, 9579, 9587, 9597, 9601, 9618, 9625, 9656, 9664, 9668, 9694, 9711, 9712, 9724 9739, 9751, 9752, 9806, 9824, 9828, 9830, 9842, 9850, 9860, 9875, 9880, 9903, 9906, Delhi-Nathupura: MAL-830, 1169, 1227, 1356, 1451, 2137, 2150, MDL-962, 996, 1237, 1275, 1285, 1350, 1392, 1397, 1466, MOL-184, MUL-4127, 5542, 5875, 6551, 8797 8889, 8940, 9577, 10444, 10539, 10610, 10641, 10668, 10727, 10761, 10886, 10899, 10949, 10958, 10993, 11024, 11084, 11111 11120, 11132, 11264, 11286, 11338, 11339, 11372, 11385, 11396, 11532, Delhi-Bakhtawarpur: BLS-14, 15, 18, MDL-484, 492, 521, 557, 598, 653, MUL-3103, 4425, 4632, 4645, 4757, 4758, 4803, 4850, 4853, 4867, 4868, 4927, RGL-667, 687, 804, 889, 926, 967 1039, 1066, 1069, 1080, 1089, 1128, 1213, 1277 नकली & कम शुद्धता: Delhi-Rana Pratap Bagh: MUL-11177, Delhi-GT Road Adarsh Nagar: MDL-3584, MUL-21782, 21890.

SRS-99, Delhi-West Sant Nagar: TMS-2, Delhi-Paramanand Colony: MHP-456, Delhi-Burari: MUL-16195, SRS-98, Delhi-Swaroop Nagar: MUL-9059, 9780, 10648, Delhi-Bakhtawarpur: MDL-1222

द्वितीय नीलामी की तिथि: 02.06.2023, Auction Centre: B-10, Derawal Nagar, Main Road Delhi-110009

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। निर्धान नाथ तथार जनुसार किस तथा हुन में अहम प्रति हुन वास है अन्य राजिया ने स्वासित को जारी तो ऐसी हिना हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी कित नहीं हो जाती तो ऐसी निलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्घारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुझ सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।